



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 जनवरी, 2021

माघ 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 191/9-1-2021-33टी0ए0-19

लखनऊ, 29 जनवरी, 2021

अधिसूचना

संशोधन/शुद्धिपत्र

प0आ0-45

जिला बलिया में नगर पंचायत रतसड़ कला के गठन के संबंध में अंतिम अधिसूचना संख्या 2546/9-1-2020-33टी0ए0-19, दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 निर्गत किया गया है। जिलाधिकारी, बलिया के पत्र दिनांक 7 जनवरी, 2021 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त नगर पंचायत में ग्राम शंकरपुर का उल्लेख नहीं है, जबकि जनपद स्तर पर प्रेषित प्रस्ताव के साथ संलग्न रूप पत्र 'ट' में ग्राम शंकरपुर, नगर पंचायत रतसड़ कला में शामिल है। नगर पंचायत रतसड़ कला के मानचित्र में 09 ग्राम-रतसड़ कला, रतसड़ खुर्द, शंकरपुर, टड़वा, छतवा, किरतपट्टी, सरभारी खुर्द, जिगनहरा एवं सुहवा सम्मिलित हैं, परन्तु नगर पंचायत रतसड़ कला के प्रादेशिक क्षेत्र में 08 ग्रामों की सीमा के गाटे अधिसूचित हो सके हैं। ग्राम शंकरपुर के सीमावर्ती गाटे तकनीकी कारणों से अधिसूचित होने से रह गये हैं। ग्राम शंकरपुर, नगर पंचायत रतसड़ कला की सीमा के अन्दर हैं, ऐसी स्थिति में इन राजस्व ग्रामों में ग्राम पंचायत चुनाव कराया जाना व्यावहारिक दृष्टि से उचित नहीं है। अतएव जिलाधिकारी, बलिया द्वारा उपरिवर्णित छूट गये ग्राम शंकरपुर की सीमावर्ती गाटों को नगर पंचायत रतसड़ कला में अधिसूचित कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2—उपरोक्त के संबंध में उल्लेख करना है कि नगर पंचायत सृजन संबंधी शासनादेश संख्या 2979/9-1-2016-426सा-14, दिनांक 6 अक्टूबर, 2016 में निर्धारित मानक के प्रस्तर-3 के बिन्दु संख्या-10 के अनुसार नगर पंचायत रतसड़ कला, जिला बलिया के गठन संबंधी अधिसूचना संख्या 2546/9-1-2020-33टी0ए0-19, दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 में नगर पंचायत के सीमावर्ती गाटा संख्याओं का उल्लेख किया गया है। सीमावर्ती गाटाओं के अन्दर में पड़ने वाले समस्त गावों/राजस्व ग्रामों को नगर पंचायत का भाग माना जायेगा।

3—इस प्रकार नगर पंचायत रतसड़ कला के मानचित्र में प्रदर्शित 09 ग्राम—रतसड़ कला, रतसड़ खुर्द, शंकरपुर, टड़वा, छतवा, किरतपट्टी, सरभारी खुर्द, जिगनहरा एवं सुहवा, नगर पंचायत रतसड़ कला, जिला बलिया का भाग माना जायेगा।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।